



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 अग्रहायण 1935 (श0)
(सं0 पटना 878) पटना, मंगलवार, 3 दिसम्बर 2013

ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

2 दिसम्बर 2013

सं० प्र2/आयोग सदस्य चयन-17/03(पार्ट)-30—विद्युत अधिनियम 2003 (The Electricity Act, 2003) की धारा-82 की उप-धारा (5) एवं धारा-85 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री ईस्माइल अली खान, सलाहकार (ऊर्जा), योजना आयोग, नई दिल्ली को उनके प्रभार ग्रहण करने की तिथि से विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-89 के प्रावधानों के अन्तर्गत 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक सदस्य, बिहार विद्युत विनियामक आयोग के पद पर नियुक्त किया जाता है।

बिहार विद्युत विनियामक आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवाशर्त) नियमावली 2003 के द्वारा बिहार सरकार ने अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवाशर्त को विहित किया है। इस सेवाशर्त के अनुसार सदस्य पद के लिए श्री ईस्माइल अली खान को पेंशन की सकल रकम के साथ-साथ उसमें किसी सरांशिकृत अंश, यदि पहले से प्राप्त कर रहे हों, की कटौती के अध्यक्षीन प्रति माह ₹ 67000-79000 वेतन देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संदीप पौण्डरीक,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 878-571+200-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>